



Sandhya badkur

09 Oct 2002

05:25 PM

Noornagar

Model: Web-MyKundli

Order No: 121886601

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

Astro praveen

जन्म कुंडली विश्लेषण

Vedic, Kp, Jaimini, Lalkitab, Numerology, Vastu

9669317073

लिंग _____: स्त्रीलिंग
जन्म तिथि _____: 09/10/2002
दिन _____: बुधवार
जन्म समय _____: 17:25:00 घंटे
इष्ट _____: 28:05:26 घटी
स्थान _____: Noornagar
राज्य _____: Madhya Pradesh
देश _____: India

अक्षांश _____: 23:06:30 उत्तर
रेखांश _____: 78:25:07 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: -00:16:20 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 17:08:40 घंटे
वेलान्तर _____: 00:12:38 घंटे
साम्पातिक काल _____: 18:20:24 घंटे
सूर्योदय _____: 06:10:49 घंटे
सूर्यास्त _____: 17:56:17 घंटे
दिनमान _____: 11:45:28 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: दक्षिणायन
सूर्य स्थिति(गोल) _____: दक्षिण
ऋतु _____: शरद
सूर्य के अंश _____: 22:07:42 कन्या
लग्न के अंश _____: 12:55:01 मीन

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: मीन - गुरु
राशि-स्वामी _____: वृश्चिक - मंगल
नक्षत्र-चरण _____: अनुराधा - 1
नक्षत्र स्वामी _____: शनि
योग _____: आयुष्मान
करण _____: विष्टि
गण _____: देव
योनि _____: मृग
नाड़ी _____: मध्य
वर्ण _____: विप्र
वश्य _____: कीटक
वर्ग _____: सर्प
युँजा _____: मध्य
हंसक _____: जल
जन्म नामाक्षर _____: ना-नन्दिता
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: रजत - ताम्र
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: तुला

Astro praveen

जन्म कुंडली विश्लेषण

Vedic, Kp, Jaimini, Lalkitab, Numerology, Vastu

9669317073

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1924	आश्विन	17
पंजाबी	संवत : 2059	आश्विन	24
बंगाली	सन् : 1409	आश्विन	22
तमिल	संवत : 2059	पुरुटासी	23
केरल	कोल्लम : 1178	कन्नी	23
नेपाली	संवत : 2059	आश्विन	23
चैत्रादि	संवत : 2059	आश्विन	शुक्ल 4
कार्तिकादि	संवत : 2059	आश्विन	शुक्ल 4

पंचांग

सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 4
तिथि समाप्ति काल _____ : 27:12:17
जन्म तिथि _____ : 4
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : विशाखा
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 15:15:51 घंटे
जन्म योग _____ : अनुराधा
सूर्योदय कालीन योग _____ : प्रीति
योग समाप्ति काल _____ : 17:15:41 घंटे
जन्म योग _____ : आयुष्मान
सूर्योदय कालीन करण _____ : वणिज
करण समाप्ति काल _____ : 16:30:46 घंटे
जन्म करण _____ : विष्टि
भयात _____ : 05:22:53
भभोग _____ : 55:40:03
भोग्य दशा काल _____ : शनि 17 वर्ष 1 मा 20 दि

घात चक्र

मास _____ : आश्विन
तिथि _____ : 1-6-11
दिन _____ : शुक्रवार
नक्षत्र _____ : रेवती
योग _____ : व्यतिपात
करण _____ : गर
प्रहर _____ : 1
वर्ग _____ : गरुड़
लग्न _____ : वृश्चिक
सूर्य _____ : मकर
चन्द्र _____ : धनु
मंगल _____ : कुम्भ
बुध _____ : वृश्चिक
गुरु _____ : मीन
शुक्र _____ : मेष
शनि _____ : कर्क
राहु _____ : वृष

Astro praveen


जन्म कुंडली विश्लेषण

Vedic, Kp, Jaimini, Lalkitab, Numerology, Vastu


9669317073

जन्म कुण्डली

लग्न कुण्डली



चन्द्र कुण्डली



Astro praveen

जन्म कुण्डली विश्लेषण

Vedic, Kp, Jaimini, Lalkitab, Numerology, Vastu

9669317073

लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुंडली

ल	रा	श
		गु
के चं	शु	बु सू मं

लग्न कुंडली

रा	ल
श	
गु	
बु सू मं	शु चं के

विंशोत्तरी
शनि 17वर्ष 1मा 20दि
शनि

09/10/2002

30/11/2120

शनि	29/11/2019
बुध	29/11/2036
केतु	29/11/2043
शुक्र	29/11/2063
सूर्य	29/11/2069
चन्द्र	29/11/2079
मंगल	29/11/2086
राहु	30/11/2104
गुरु	30/11/2120

योगिनी

भ्रामरी 3वर्ष 7मा 9दि
संकटा

19/05/2024

19/05/2032

संकटा	27/02/2026
मंगला	19/05/2026
पिंगला	29/10/2026
धान्या	29/06/2027
भ्रामरी	19/05/2028
भद्रिका	29/06/2029
उल्का	29/10/2030
सिद्धा	19/05/2032

Astro praveen

जन्म कुंडली विश्लेषण

Vedic, Kp, Jaimini, Lalkitab, Numerology, Vastu

9669317073


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			मीन	12:55:01	480:56:47	उ०भाद्रपद	3	26	गुरु	शनि	राहु	---
सूर्य			कन्या	22:07:42	00:59:17	हस्त	4	13	बुध	चंद्र	शुक्र	सम राशि
चंद्र			वृश्चि	04:38:20	14:32:14	अनुराधा	1	17	मंगल	शनि	शनि	नीच राशि
मंगल			कन्या	02:07:55	00:38:15	उ०फाल्गुनी	2	12	बुध	सूर्य	गुरु	शत्रु राशि
बुध			कन्या	05:03:34	00:27:44	उ०फाल्गुनी	3	12	बुध	सूर्य	शनि	उच्च राशि
गुरु			कर्क	19:35:06	00:09:05	आश्लेषा	1	9	चंद्र	बुध	शुक्र	उच्च राशि
शुक्र			तुला	21:41:13	00:02:58	विशाखा	1	16	शुक्र	गुरु	गुरु	स्वराशि
शनि			मिथु	05:11:25	00:00:14	मृगशिरा	4	5	बुध	मंगल	सूर्य	मित्र राशि
राहु	व		वृष	16:08:05	00:01:19	रोहिणी	2	4	शुक्र	चंद्र	शनि	मित्र राशि
केतु	व		वृश्चि	16:08:05	00:01:19	अनुराधा	4	17	मंगल	शनि	गुरु	मित्र राशि
हर्ष	व		कुंभ	01:17:18	00:01:14	धनिष्ठा	3	23	शनि	मंगल	बुध	---
नेप	व		मक	14:20:16	00:00:22	श्रवण	2	22	शनि	चंद्र	गुरु	---
प्लूटो			वृश्चि	21:31:54	00:01:23	ज्येष्ठा	2	18	मंगल	बुध	शुक्र	---
दशम भाव			धनु	10:47:12	--	मूल	--	19	गुरु	केतु	शनि	--


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:53:27


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



Astro praveen

जन्म कुंडली विश्लेषण

Vedic, Kp, Jaimini, Lalkitab, Numerology, Vastu

9669317073

चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	कुम्भ 27:33:43	मीन 12:55:01
2	मीन 27:33:43	मेष 12:12:25
3	मेष 26:51:07	वृष 11:29:49
4	वृष 26:08:30	मिथुन 10:47:12
5	मिथुन 26:08:30	कर्क 11:29:49
6	कर्क 26:51:07	सिंह 12:12:25
7	सिंह 27:33:43	कन्या 12:55:01
8	कन्या 27:33:43	तुला 12:12:25
9	तुला 26:51:07	वृश्चिक 11:29:49
10	वृश्चिक 26:08:30	धनु 10:47:12
11	धनु 26:08:30	मकर 11:29:49
12	मकर 26:51:07	कुम्भ 12:12:25


निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	मीन	12:55:01
2	मेष	18:09:49
3	वृष	16:08:37
4	मिथुन	10:47:12
5	कर्क	06:01:16
6	सिंह	05:45:00
7	कन्या	12:55:01
8	तुला	18:09:49
9	वृश्चिक	16:08:37
10	धनु	10:47:12
11	मकर	06:01:16
12	कुम्भ	05:45:00


तारा चक्र

जन्म	सम्पत	विपत	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
अनुराधा	ज्येष्ठा	मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पू०भाद्रपद
उ०भाद्रपद	रेवती	अश्विनी	भरणी	कृतिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु
पुष्य	आश्लेषा	मघा	पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति	विशाखा

चलित कुंडली



भाव कुंडली



Astro praveen

जन्म कुंडली विश्लेषण

Vedic, Kp, Jaimini, Lalkitab, Numerology, Vastu

9669317073

विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : शनि 17 वर्ष 1 मास 20 दिन

शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष
09/10/2002	29/11/2019	29/11/2036	29/11/2043	29/11/2063
29/11/2019	29/11/2036	29/11/2043	29/11/2063	29/11/2069
शनि 03/12/2003	बुध 27/04/2022	केतु 27/04/2037	शुक्र 31/03/2047	सूर्य 18/03/2064
बुध 12/08/2006	केतु 24/04/2023	शुक्र 27/06/2038	सूर्य 30/03/2048	चंद्र 17/09/2064
केतु 20/09/2007	शुक्र 22/02/2026	सूर्य 02/11/2038	चंद्र 29/11/2049	मंगल 22/01/2065
शुक्र 20/11/2010	सूर्य 30/12/2026	चंद्र 03/06/2039	मंगल 29/01/2051	राहु 17/12/2065
सूर्य 02/11/2011	चंद्र 30/05/2028	मंगल 30/10/2039	राहु 29/01/2054	गुरु 05/10/2066
चंद्र 02/06/2013	मंगल 27/05/2029	राहु 17/11/2040	गुरु 29/09/2056	शनि 17/09/2067
मंगल 12/07/2014	राहु 15/12/2031	गुरु 23/10/2041	शनि 29/11/2059	बुध 24/07/2068
राहु 18/05/2017	गुरु 22/03/2034	शनि 02/12/2042	बुध 29/09/2062	केतु 29/11/2068
गुरु 29/11/2019	शनि 29/11/2036	बुध 29/11/2043	केतु 29/11/2063	शुक्र 29/11/2069

चंद्र 10 वर्ष	मंगल 7 वर्ष	राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष
29/11/2069	29/11/2079	29/11/2086	30/11/2104	30/11/2120
29/11/2079	29/11/2086	30/11/2104	30/11/2120	00/00/0000
चंद्र 29/09/2070	मंगल 27/04/2080	राहु 11/08/2089	गुरु 18/01/2107	शनि 10/10/2122
मंगल 30/04/2071	राहु 15/05/2081	गुरु 05/01/2092	शनि 31/07/2109	00/00/0000
राहु 29/10/2072	गुरु 21/04/2082	शनि 11/11/2094	बुध 06/11/2111	00/00/0000
गुरु 28/02/2074	शनि 31/05/2083	बुध 30/05/2097	केतु 12/10/2112	00/00/0000
शनि 30/09/2075	बुध 27/05/2084	केतु 18/06/2098	शुक्र 13/06/2115	00/00/0000
बुध 28/02/2077	केतु 23/10/2084	शुक्र 19/06/2101	सूर्य 31/03/2116	00/00/0000
केतु 29/09/2077	शुक्र 23/12/2085	सूर्य 13/05/2102	चंद्र 31/07/2117	00/00/0000
शुक्र 31/05/2079	सूर्य 30/04/2086	चंद्र 12/11/2103	मंगल 07/07/2118	00/00/0000
सूर्य 29/11/2079	चंद्र 29/11/2086	मंगल 30/11/2104	राहु 30/11/2120	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल शनि 17 वर्ष 1 मा 29 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

Astro praveen

जन्म कुंडली विश्लेषण

Vedic, Kp, Jaimini, Lalkitab, Numerology, Vastu

9669317073

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

बुध - सूर्य 22/02/2026 30/12/2026	बुध - चंद्र 30/12/2026 30/05/2028	बुध - मंगल 30/05/2028 27/05/2029	बुध - राहु 27/05/2029 15/12/2031	बुध - गुरु 15/12/2031 22/03/2034
सूर्य 10/03/2026 चंद्र 05/04/2026 मंगल 23/04/2026 राहु 08/06/2026 गुरु 20/07/2026 शनि 07/09/2026 बुध 21/10/2026 केतु 08/11/2026 शुक्र 30/12/2026	चंद्र 11/02/2027 मंगल 13/03/2027 राहु 30/05/2027 गुरु 07/08/2027 शनि 27/10/2027 बुध 09/01/2028 केतु 08/02/2028 शुक्र 04/05/2028 सूर्य 30/05/2028	मंगल 20/06/2028 राहु 14/08/2028 गुरु 01/10/2028 शनि 27/11/2028 बुध 17/01/2029 केतु 08/02/2029 शुक्र 09/04/2029 सूर्य 27/04/2029 चंद्र 27/05/2029	राहु 14/10/2029 गुरु 15/02/2030 शनि 13/07/2030 बुध 22/11/2030 केतु 15/01/2031 शुक्र 19/06/2031 सूर्य 05/08/2031 चंद्र 21/10/2031 मंगल 15/12/2031	गुरु 03/04/2032 शनि 12/08/2032 बुध 07/12/2032 केतु 25/01/2033 शुक्र 12/06/2033 सूर्य 23/07/2033 चंद्र 30/09/2033 मंगल 17/11/2033 राहु 22/03/2034
बुध - शनि 22/03/2034 29/11/2036	केतु - केतु 29/11/2036 27/04/2037	केतु - शुक्र 27/04/2037 27/06/2038	केतु - सूर्य 27/06/2038 02/11/2038	केतु - चंद्र 02/11/2038 03/06/2039
शनि 24/08/2034 बुध 11/01/2035 केतु 09/03/2035 शुक्र 20/08/2035 सूर्य 08/10/2035 चंद्र 29/12/2035 मंगल 24/02/2036 राहु 21/07/2036 गुरु 29/11/2036	केतु 07/12/2036 शुक्र 01/01/2037 सूर्य 09/01/2037 चंद्र 21/01/2037 मंगल 30/01/2037 राहु 21/02/2037 गुरु 13/03/2037 शनि 06/04/2037 बुध 27/04/2037	शुक्र 07/07/2037 सूर्य 28/07/2037 चंद्र 02/09/2037 मंगल 27/09/2037 राहु 29/11/2037 गुरु 25/01/2038 शनि 03/04/2038 बुध 02/06/2038 केतु 27/06/2038	सूर्य 03/07/2038 चंद्र 14/07/2038 मंगल 21/07/2038 राहु 10/08/2038 गुरु 27/08/2038 शनि 16/09/2038 बुध 04/10/2038 केतु 12/10/2038 शुक्र 02/11/2038	चंद्र 20/11/2038 मंगल 02/12/2038 राहु 03/01/2039 गुरु 31/01/2039 शनि 06/03/2039 बुध 05/04/2039 केतु 18/04/2039 शुक्र 23/05/2039 सूर्य 03/06/2039
केतु - मंगल 03/06/2039 30/10/2039	केतु - राहु 30/10/2039 17/11/2040	केतु - गुरु 17/11/2040 23/10/2041	केतु - शनि 23/10/2041 02/12/2042	केतु - बुध 02/12/2042 29/11/2043
मंगल 12/06/2039 राहु 04/07/2039 गुरु 24/07/2039 शनि 16/08/2039 बुध 07/09/2039 केतु 15/09/2039 शुक्र 10/10/2039 सूर्य 18/10/2039 चंद्र 30/10/2039	राहु 27/12/2039 गुरु 16/02/2040 शनि 16/04/2040 बुध 10/06/2040 केतु 02/07/2040 शुक्र 04/09/2040 सूर्य 23/09/2040 चंद्र 25/10/2040 मंगल 17/11/2040	गुरु 01/01/2041 शनि 24/02/2041 बुध 13/04/2041 केतु 03/05/2041 शुक्र 29/06/2041 सूर्य 16/07/2041 चंद्र 13/08/2041 मंगल 02/09/2041 राहु 23/10/2041	शनि 27/12/2041 बुध 22/02/2042 केतु 17/03/2042 शुक्र 24/05/2042 सूर्य 13/06/2042 चंद्र 17/07/2042 मंगल 10/08/2042 राहु 09/10/2042 गुरु 02/12/2042	बुध 23/01/2043 केतु 13/02/2043 शुक्र 14/04/2043 सूर्य 02/05/2043 चंद्र 01/06/2043 मंगल 22/06/2043 राहु 16/08/2043 गुरु 03/10/2043 शनि 29/11/2043

Astro praveen

जन्म कुंडली विश्लेषण

Vedic, Kp, Jaimini, Lalkitab, Numerology, Vastu

9669317073

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।

मूलांक	9
भाग्यांक	5
मित्र अंक	1, 3, 6, 9, 5
शत्रु अंक	4, 8
शुभ वर्ष	27,36,45,54,63
शुभ दिन	सोम, मंगल, गुरु
शुभ ग्रह	चन्द्र, मंगल, गुरु
मित्र राशि	कर्क, सिंह
मित्र लग्न	मिथुन, वृश्चिक, मकर
अनुकूल देवता	शिव
शुभ रत्न	पुखराज
शुभ उपरत्न	सुनहला, पीला हकीक
भाग्य रत्न	मूंगा
शुभ धातु	कांसा
शुभ रंग	पीत
शुभ दिशा	पूर्वोत्तर
शुभ समय	संध्या
दान पदार्थ	हल्दी, पुस्तक, पीत पुष्प
दान अन्न	दाल चना
दान द्रव्य	घी

Astro praveen

जन्म कुंडली विश्लेषण

Vedic, Kp, Jaimini, Lalkitab, Numerology, Vastu


9669317073

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
पुखराज	गुरु	100%	सन्तति सुख, व्यावसायिक उन्नति, स्वास्थ्य
मोती	चंद्र	83%	भाग्योदय, सन्तति सुख
मूंगा	मंगल	78%	दम्पति, धन, भाग्योदय
लहसुनिया	केतु	69%	भाग्योदय, दम्पति
पन्ना	बुध	56%	दम्पति, सुख
नीलम	शनि	55%	सुख, धनार्जन, कम खर्च
माणिक्य	सूर्य	31%	दाम्पत्य कष्ट, शत्रु व रोग
गोमेद	राहु	16%	पराक्रम हानि, दुर्घटना
हीरा	शुक्र	0%	दुर्घटना, पराक्रम हानि



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
शनि	29/11/2019	6%	70%	66%	62%	100%	0%	67%	28%	56%
बुध	29/11/2036	44%	70%	78%	69%	100%	0%	55%	16%	69%
केतु	29/11/2043	6%	70%	84%	56%	100%	0%	34%	0%	81%
शुक्र	29/11/2063	6%	70%	78%	62%	100%	0%	61%	28%	75%
सूर्य	29/11/2069	53%	89%	84%	56%	100%	0%	34%	0%	56%
चंद्र	29/11/2079	44%	95%	78%	62%	100%	0%	55%	0%	56%
मंगल	29/11/2086	44%	89%	91%	38%	100%	0%	55%	0%	75%
राहु	30/11/2104	6%	70%	66%	56%	100%	0%	61%	41%	56%
गुरु	30/11/2120	44%	89%	84%	38%	100%	0%	55%	16%	69%

Astro praveen

जन्म कुंडली विश्लेषण

Vedic, Kp, Jaimini, Lalkitab, Numerology, Vastu

9669317073

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	09/10/2002-08/01/2003 07/04/2003-06/09/2004 13/01/2005-26/05/2005
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	15/11/2011-16/05/2012 04/08/2012-02/11/2014 -----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	02/11/2014-26/01/2017 21/06/2017-26/10/2017 -----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	26/01/2017-21/06/2017 26/10/2017-24/01/2020 -----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	29/04/2022-12/07/2022 17/01/2023-29/03/2025 -----

द्वितीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	31/05/2032-13/07/2034 -----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	28/01/2041-06/02/2041 26/09/2041-11/12/2043 23/06/2044-30/08/2044
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	11/12/2043-23/06/2044 30/08/2044-08/12/2046 -----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	08/12/2046-06/03/2049 10/07/2049-04/12/2049 -----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	25/02/2052-14/05/2054 02/09/2054-05/02/2055 -----

तृतीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	11/07/2061-13/02/2062 07/03/2062-24/08/2063 06/02/2064-09/05/2064
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	04/11/2070-05/02/2073 31/03/2073-23/10/2073 -----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	05/02/2073-31/03/2073 23/10/2073-16/01/2076 11/07/2076-11/10/2076
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	16/01/2076-11/07/2076 11/10/2076-15/01/2079 -----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	12/04/2081-03/08/2081 07/01/2082-20/03/2084 -----

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार	फल	क्षेत्र
अष्टम स्थानस्थ ढैया	सम	सुख
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	सम	दुर्घटना से बचाव
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	सम	बदनामी
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	शुभ	व्यावसाय
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	सम	कम खर्च

Astro praveen

जन्म कुंडली विश्लेषण

Vedic, Kp, Jaimini, Lalkitab, Numerology, Vastu

9669317073

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डन्ट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

Astro praveen

जन्म कुंडली विश्लेषण

Vedic, Kp, Jaimini, Lalkitab, Numerology, Vastu

9669317073

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए। जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपके जन्म समय में मंगल की स्थिति सप्तम भाव में है। अतः आप एक मांगलिक कन्या हैं। चूंकि आपका मांगलिक दोष भंग नहीं हो रहा है अतः इसके प्रभाव से आपके पति का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा तथा स्वभाव से ही उनमें उग्रता रहेगी जिससे यदा कदा परस्पर संबंधों में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं लेकिन यह अल्प समय के लिए होंगे तथा दाम्पत्य जीवन पर इसका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं होगा। आप भी यदा कदा पित या गर्मी आदि से परेशानी की अनुभूति कर सकती हैं। मंगल के इस प्रभाव से आपके विवाह कार्य में विलम्ब होने की संभावना रहेगी तथा विवाह से पूर्व वार्ताओं में भी गतिरोध रहेगा लेकिन अन्त में आप को सफलता अवश्य प्राप्त होगी तथा सामान्य रूप से दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी।

सप्तम भावस्थ मंगल के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा तथा पित जन्य दोषों से आपको परेशानी हो सकती है। दशम भाव पर मंगल की दृष्टि से कार्य क्षेत्र में आप परिश्रम एवं पराक्रम से इच्छित सफलता अर्जित करेंगी तथा समाज से भी न्यूनाधिक मान सम्मान की प्राप्ति होती रहेगी। लग्न पर दृष्टि के प्रभाव से स्वभाव में तेजस्विता का भाव रहेगा तथा यदा कदा मानसिक अशान्ति की भी अनुभूति हो सकती है। द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव से पारिवारिक सुख शान्ति तथा समृद्धि मध्यम रहेगी तथा यदा कदा पारिवारिक जनों के मध्य मतभेद उत्पन्न होंगे जिससे परिवार की शान्ति प्रभावित होगी लेकिन इसका दुष्प्रभाव अल्प मात्रा में ही रहेगा।

अतः अपने दाम्पत्य जीवन को अधिक सुखी एवं सम्पन्न बनाने के लिए आपको किसी ऐसे मांगलिक पुरुष से विवाह करना चाहिए जिससे आपका परस्पर मांगलिक दोष भंग हो सके। इसके लिए पुरुष की कुंडली में मांगलिक भावों अर्थात् प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में शनि तथा राहु जैसे पापग्रहों की स्थिति होनी चाहिए। इससे आपके

Astro praveen

जन्म कुंडली विश्लेषण

Vedic, Kp, Jaimini, Lalkitab, Numerology, Vastu

9669317073

सुख सौभाग्य एवं ऐश्वर्य में वृद्धि होगी तथा सुखी एवं प्रसन्नता पूर्वक आपका दाम्पत्य जीवन व्यतीत होगा। आपसी संबंधों में भी मधुरता तथा सहयोग का भाव विद्यमान रहेगा।



Astro praveen

जन्म कुंडली विश्लेषण

Vedic, Kp, Jaimini, Lalkitab, Numerology, Vastu

9669317073

कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। अतः इस योग से ग्रसित जातकों के लिए आवश्यक है कि वे इस काल सर्प योग का निदान करा लें। जिससे कि कुंडली के शुभ योगों के फल पूर्णयता मिलते रहें।

द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाद्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाद्ध नामक योग बनता है।

यदि लग्न कुंडली में सभी सातों ग्रह राहु से केतु के मध्य में हो लेकिन अंशानुसार कुछ ग्रह राहु केतु की धुरी से बाहर हों तो आंशिक काल सर्प योग कहलाता है। यदि कोई एक ग्रह राहु-केतु की धुरी से बाहर हो तो भी आंशिक काल सर्प योग बनता है।

यदि राहु से केतु तक सभी भावों में कोई न कोई ग्रह स्थित हो तो यह योग पूर्ण रूप से फलित होता है। यदि राहु-केतु के साथ सूर्य या चंद्र हो तो यह योग अधिक प्रभावशाली होता है। यदि राहु, सूर्य व चंद्र तीनों एक साथ हो तो ग्रहणकाल सर्प योग बनता है। इसका फल हजार गुना अधिक हो जाता है। ऐसे जातक को काल सर्प योग की शांति करवाना अति आवश्यक होता है।

काल सर्प योग का प्रभाव

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं।

काल सर्प योग के औपचारिक उपाय के द्वारा इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। जन्मपत्रिका के अनुसार जब-जब राहु एवं केतु की महादशा, अंतर्दशा आदि

Astro praveen

जन्म कुंडली विश्लेषण

Vedic, Kp, Jaimini, Lalkitab, Numerology, Vastu

9669317073

आती है तब तब यह योग असर दिखाता है। गोचर में राहु व केतु का जन्मकालिक राहु-केतु व चंद्र पर भ्रमण भी इस योग को सक्रिय कर देता है। उस समय विशेष ध्यान देकर पूजा अर्चनादि श्रद्धा विश्वास के साथ करें, अवश्य लाभ होगा। कालसर्प योग यंत्र के सम्मुख 43 दिन तक सरसों के तेल का दीया जलाने से भी इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मकुण्डली में वासुकि नामक कालसर्प योग अनुदित रूप में विद्यमान है। लेकिन यह राहु/केतु के साथ सूर्य/चन्द्र होने के कारण विशेष प्रभावशाली है। फलस्वरूप जातक के भाग्योदय होने में अड़चनें आती हैं। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाईयाँ उपस्थित हो जाती हैं। यश, पद, प्रतिष्ठा आदि को प्राप्त करने में जातक को विशेष रूप से संघर्ष करना पड़ता है और राजकीय सेवा का अवसर भी प्राप्त होता है। जातक विदेश गमन करता है। परन्तु विदेश प्रवास में भारी कष्ट उठाने पड़ते हैं। पूजा पाठ, यजन-याजन, दान आदि धर्म कार्यों में जातक को अरुचि रहती है।

इस योग के कारण जातक का वैवाहिक जीवन कष्टमय रहता है तथा पति-पत्नी में परस्पर कटुता, अविश्वास, वैमनस्यता विरोध आदि रहता है। पारिवारिक सदस्य से जातक परेशान रहता है। भाई-बहनों की ओर से जातक को क्लेश उठाना पड़ता है। मित्रगण समय पर धोखा देते हैं। रिश्तेदार विरोध तथा क्षति पहुँचाते रहते हैं। घर में सुख-शान्ति का अभाव रहता है।

इस योग के कारण शारीरिक स्थूलता तथा आलस्य जातक को घेरे रहता है और रोग व्याधि समय-समय पर परेशान करते रहते हैं। जिस कारण आर्थिक स्थिति भी नाजुक हो जाती है। कानूनी दस्तावेजों पर जातक भावुकतावश हस्ताक्षर कर देता है परिणामस्वरूप नुकसान ही उठाना पड़ता है तथा राज्य पक्ष से समय-समय पर प्रतिकूल फल प्राप्त होता है। इस योग के कारण जातक उत्कोच (धूस) लेकर धनोपार्जन करता है, परिणामस्वरूप अनेक बार निलम्बित होना पड़ता है। चन्द्रमा के प्रभावित होने के कारण जीवन मानसिक रूप से अशान्त रहता है।

यदि आप कभी उपरोक्त परेशानी महसूस करते हैं तो निम्नलिखित उपाय करें, अवश्य लाभ मिलेगा।

1. काल सर्प दोष निवारण यंत्र घर में स्थापित करके, इसका नियमित पूजन करें।
2. शुभ मुहूर्त में शिवलिंग पर ताम्बे का सर्प अनुष्ठानपूर्वक समर्पित करें।
3. शुभ मुहूर्त में बहते पानी में मसूर की दाल सात बार प्रवाहित करें।
4. शुभ मुहूर्त में एकाक्षी नारियल अपने ऊपर से सात बार उतारकर सात बुधवार के दिन यमुना जी या बहते पानी में प्रवाहित करें।
5. प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।
6. शुभ मुहूर्त में अभिमन्त्रित लहसुनिया धारण करें।
7. केतु मन्त्र का 18 अद्वारह हजार (18000) जप करें या करवायें। केतु की दशा अन्तर्दशा में करवाना अधिक श्रेयष्कर है।

8. एक वर्ष तक गणपत्यथर्वशीर्ष का नित्यपाठ करें।
9. कम्बल, धूम्रवस्त्र, शस्त्र, सप्तधान्य, तेल आदि शुभ मुहूर्त में समय-समय पर दान करें।
10. सात शनिवार को देवदारु, सरसों तथा लोहवान इन तीनों को उबाल कर स्नान करें।
11. शयनकक्ष में लाल रंग के पर्दे, चादर तथा तकियों का उपयोग जीवन भर करें।
12. सर्वतो भद्र मण्डल यन्त्र को पूजित कर धारण करें।
13. शुक्ल पक्ष के प्रथम (जेठे) शनिवार से यह व्रत आरंभ करना चाहिए। यह व्रत 18 करें। काला वस्त्र धारण करके 18 या 3 बीज मन्त्र की माला जपें। तदन्तर एक बर्तन में जल, दूर्वा और कुश लेकर पीपल की जड़ में डालें। भोजन में मीठा चूरमा, मीठी रोटी समयानुसार रेवड़ी, भुग्गा, तिल के बने मीठे पदार्थ सेवन करें और यही दान में भी दें। रात को घी का दीपक जलाकर पीपल की जड़ में रख दें।

विशेष

ध्यान रखें कालसर्पयोग का पूजन केवल श्रीखण्ड चन्दन से करें। कुंकुम, सिन्दूर, रोली आदि का प्रयोग न करें। तिरुपति बालाजी के पास कालाहस्ती शिव मंदिर में जाकर कालसर्प योग की शांति का उपाय विधि-विधान से एक बार करें अथवा 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजा करें जैसे - कि सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ मंदिर, महाराष्ट्र के नासिक में त्रयंबकेश्वर मंदिर, उज्जैन, भीमाशंकर, नागेश्वर, रामेश्वर, वगैरे।



पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

Astro praveen

जन्म कुंडली विश्लेषण

Vedic, Kp, Jaimini, Lalkitab, Numerology, Vastu

9669317073

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें। मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें। यह स्थान पितृों का स्थान माना जाता है।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- चन्द्र नवम् भाव में स्थित है तथा उस पर राहु का प्रभाव है।
- नवम् भाव के स्वामी पर राहु का प्रभाव है।
- पंचम् भाव का स्वामी नीचस्थ है और उस पर राहु का प्रभाव है।

आपकी कुण्डली में चन्द्र और मंगल के कारण पितृदोष है।

आपकी कुण्डली में चंद्र पितृदोष कारक ग्रह है अतः माता के पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ सोमवार को प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं साथ ही शिव पंचाक्षरी “ॐ नमः शिवाय” का मंत्र जाप करें। दुर्गा, शिव या पार्थिवेश्वर महादेव का पूजन करें। ढाक की समिधा व जड़ी-बूटियों से हवन करे तथा गौ-दान करें।

आपकी कुण्डली में मंगल पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी पुरुष सदस्य द्वारा क्रोधवश किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ आपको नौकर, छोटे भाईयों को दान देना चाहिए।

Astro praveen

जन्म कुंडली विश्लेषण

Vedic, Kp, Jaimini, Lalkitab, Numerology, Vastu


9669317073

आपकी कुंडली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों।

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांड़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।



ग्रह फल

सूर्य

सप्तम भाव में सूर्य हो तो जातक चिन्तायुक्त राज्य से अपमानित, आत्मरत, कठोर, स्वाभिमानी एवं विवाहित जीवन दुःखी होता है।

कन्या राशि में रवि हो तो जातक लेखन कुशल, दुर्बल, शक्तिहीन, मन्दाग्निरोगी, व्यर्थवकवादी, साहित्य और कविता में रुचि, भाषाविद् -बुद्धिमान, पत्रकार एवं गणितज्ञ होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य की स्थिति सप्तम भाव में है अतः पिता की आप प्रिय रहेंगी। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं आयु भी लम्बी होगी। आपके शुभ प्रभाव से धनलाभ प्राप्त करने में वे सफल होंगे तथा जीवन में सर्वप्रकार से आपकी सहायता एवं सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपके विवाह कराने में उनका पूर्ण सहयोग रहेगा। साथ ही आप उनकी विश्वास पात्र भी होंगी।

आपकी भी उनके प्रति पूर्ण सम्मान की भावना रहेगी तथा उनकी आज्ञा पालन में भी नित्य रुचिशील रहेंगी। आपके आपसी संबंध मधुर होंगे परन्तु यदा कदा कुछ सैद्धान्तिक मतभेद भी होंगे जिससे सम्बन्धों में क्षणिक तनाव एवं कटुता उत्पन्न होगी परन्तु कुछ समयोपरान्त सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही आप जीवन में उनकी सहायता करने के लिए भी तत्पर रहेंगी एवं अपनी ओर से उन्हें किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं होने देंगी।

चन्द्र

नवेंभाव में चन्द्रमा हो तो जातक विद्वान्, विद्याप्रिय, चंचल, न्यायी, प्रवास-प्रिय, कार्यशील, धर्मात्मा. सन्तति-सम्पत्तियुक्त सुखी, साहसी एवं अल्पभातृवान् होता है।

वृश्चिक राशि में चन्द्रमा हो तो जातक अपने माता-पिता, भाइयों आदि से अलग रहने वाला, नास्तिक, लोभी, बन्धुहीन, परस्त्रीरत, झगड़ालू, स्पष्ट वक्ता, बुरे विचार रखने वाले, दुःखी, हठी, अनैतिक विचारों वाला एवं धनी होता है।

आपके जन्म काल में चन्द्रमा की स्थिति नवम भाव में स्थित है। अतः आपकी माता जी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा एवं आयु भी दीर्घ रहेंगी। माता की आप अत्यन्त ही प्रिय रहेंगी तथा जीवन में उनसे पूर्ण सहयोग तथा सुख संसाधनों को प्राप्त करेंगी। धन सम्पत्ति से वे प्रायः युक्त ही रहेंगी तथा आपको वांछित आर्थिक तथा अन्य सहायता को देने के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगी। साथ ही आपकी भाग्योन्नति में भी उनका विशेष योगदान रहेगा।

आप भी उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव रखेंगी एवं सम्मान पूर्वक उनकी आज्ञा का अनुपालन करने के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगी। साथ ही आप आजीवन उनकी सुख सुविधा के लिए भी प्रयत्नशील रहेंगी। आप एक दूसरे से हमेशा सहमत रहेंगी एवं मतभेदों का प्रायः अभाव ही रहेगा। अतः आपके परस्पर संबंध मधुरता से युक्त रहेंगे इस प्रकार आप एक दूसरे के लिए शुभ रहेंगी।

मंगल

सातवें भाव में मंगल हो तो जातक वातरोगी, राजभीरु, शीघ्रकोपी, कटुभाषी, स्त्रीदुःखी, धूर्त, मूर्ख, निर्धन, घातकी, धननाशक एवं ईर्ष्यालु होता है।

कन्या राशि में मंगल हो तो जातक सुखी, शिल्पज्ञ, पापभीरु, लोकमान्य एवं व्यवहार कुशल होता है।

आपके जन्म समय में मंगल सप्तम भाव में स्थित है अतः भाई बहिनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा परन्तु यदा कदा वे शारीरिक रूप से कष्टानुभूति भी प्राप्त करेंगे। आप उनकी प्रिय रहेंगी तथा आपके प्रति उनके मन में पूर्ण स्नेह तथा सम्मान का भाव विद्यमान रहेगा। धन धान्य से वे युक्त रहेंगे तथा जीवन में उनसे आप पूर्ण रूपेण सहयोग प्राप्त करेंगी एवं आपकी विवाह सम्पन्न कराने में भी उनका मुख्य योगदान रहेगा। साथ ही व्यापार संबंधी कार्यों एवं सुख दुःख में वे आपको अपनी ओर से पूर्ण आर्थिक तथा अन्य प्रकार से सहायता प्रदान करते रहेंगे।

आपके मन में भी उनके प्रति पूर्ण स्नेह एवं विश्वास रहेगा एवं उनके समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में आपका सहयोग रहेगा। साथ ही विषम परिस्थितियों में भी आप उनको आर्थिक तथा अन्य प्रकार से सहायता प्रदान करेंगी। आपके आपसी संबंध मधुर रहेंगे परन्तु यदा कदा सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण इसमें कटुता भी आएगी लेकिन यह अस्थायी होगी तथा शीघ्र संबंध सामान्य हो जाएंगे।

बुध

सातवें भाव में बुध हो तो जातक सुन्दर, विद्वान्, कुलीन, व्यवसायकुशल, धनी, लेखक, सम्पादक, उदार, सुखी, अल्पवीर्य, दीर्घायु एवं धार्मिक होता है।

कन्या राशि में बुध हो तो जातक वक्ता, कवि, साहित्यिक, लेखक, सम्पादक, ज्योतिषी, खगोलशास्त्री, गणितज्ञ, अध्यापक, उदार, सुखी एवं अच्छा चरित्र वाला होता है।

गुरु

पंचमभाव में गुरु हो तो जातक नीतिविशारद, सन्ततिवान्, सट्टे से धन प्राप्त करने वाला, कुलश्रेष्ठ, लोकप्रिय, कुटुम्ब में सबसे ऊँचा स्थान, ज्योतिषी एवं आस्तिक होता है।

कर्क राशि में गुरु हो तो जातक सदाचारी, विद्वान्, सत्यवक्ता महायशस्वी, साम्यवादी, सुधारक, योगी, लोकमान्य, सुखी, धनी, नेता, कुशाबुद्धि एवं वफादार होता है।

शुक्र

अष्टम भाव में शुक्र हो तो जातक ज्योतिषी, क्रोधी, मनस्वी, दुखी, गुप्तरोगी,

पर्यटनशील, परस्त्रीरत, विदेशवासी, निर्दयी, गुप्तविद्याओं के प्रतिरुचि एवं रोगी होता है।

तुला राशि में शुक्र हो तो जातक विलासी, कलानिपुण, प्रवासी, यशस्वी, कार्यदक्ष, कुशाबुद्धि, उदार, दार्शनिक, सुन्दर, सुखी विवाहित जीवन, अभिमानी, बौद्धिक कामों में रुचि, कविता और उपन्यास लिखने में रुचि एवं संतुलित स्वभाव होता है।

शनि

चतुर्थभाव में शनि हो तो जातक अपयशी, बलहीन, धूर्त, कपटी, शीघ्रकोपी, कृशदेही, उदासीन, वातपित्तयुक्त एवं भाग्यवान् होता है।

मिथुन राशि में शनि हो तो जातक दुराचारी, कपटी, कामी, पाखण्डी, निर्धन, दुःखी एवं संकीर्ण मन वाला होता है।

राहु

तृतीय भाव में राहु हो तो जातक योगाभ्यासी, विद्वान्, व्यवसायी, पराक्रमशून्य, दृढ़विवेकी, अरिष्टनाशक, प्रवासी, दीर्घायु एवं बलवान् होता है।

वृष राशि में राहु हो तो जातक सुखी, चंचल, कुरूप, आवेशपूर्ण स्वभाव एवं धनी होता है।

केतु

नवम भाव में केतु हो तो जातक सुखाभिलाषी, व्यर्थपरिश्रमी अपयशी, दुःखी एवं 48 वर्ष के बाद भाग्योदय होता है।

वृश्चिक राशि में केतु हो तो जातक धूर्त, वाचाल, कुष्ठरोगी, क्रोधी निर्धन एवं व्यसनी होता है।

दशा विश्लेषण

**महादशा :- बुध
(29/11/2019 - 29/11/2036)**

बुध की महादशा 29/11/2019 को आरम्भ होगी और 17 वर्ष की होकर 29/11/2036 को समाप्त होगी। आपकी जन्मकुण्डली में बुध सप्तम भाव में स्थित है। बुध की दृष्टि प्रथम भाव पर है। इसके पूर्व आपकी 19 वर्ष की शनि दशा चल रही थी। शनि के फलस्वरूप आपकी यात्रा, शक्ति में वृद्धि, सम्पत्ति की प्राप्ति तथा सम्बन्धियों से सहायता मिली होगी। बुध की इस दशा में आपकी जीवन वृद्धि में उन्नति, साझेदार से लाभ और व्यवसाय-व्यापार में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य :

इस दशा के दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपका स्वास्थ्य तथा जीवन शक्ति उत्तम रहेगी। फिर भी मौसम में परिवर्तन के कारण आपको ज्वर, संक्रामक बीमारी, चर्मरोग, स्नायविक समस्या, उदर रोग आदि हो सकता है। आपमें वायु, पित्त तथा कफ तीनों दोषों का मिश्रण है, अतः आपके लिए सामान्य उपचार आवश्यक है।

अर्थ और व्यवसाय :

आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। व्यापार-व्यवसाय में लाभ होगा। जीवन साथी तथा साझेदार से भी लाभ मिल सकता है। सट्टे में पर्याप्त लाभ हो सकता है। विदेश से व्यापार लाभदायक हो सकता है। जीविका के लिए लेखा, पत्रकारिता, शिक्षण तथा सभी बौद्धिक कार्यों का चयन कर सकते हैं। रत्न, पुस्तक, लेखन सामग्री, कम्प्यूटर और हस्तनिर्मित वस्तु का व्यापार लाभदायक हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को लाभ मिलेगा और आय तथा सम्मान में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में स्थिति आपके अनुकूल होगी तथा सफलता और पदोन्नति प्राप्त होगी। व्यापार-व्यवसाय से जुड़े लोग अच्छा करेंगे। समाज में आपकी छवि उत्तम होगी, व्यापार में विस्तार और आय में वृद्धि होगी। कार्य के सिलसिले में आप यात्रा पर जा सकते हैं। जीवन में प्रगति के लिए यह दशा उत्तम है।

वाहन, यात्रा, जमीन-जायदाद :

गुरु की अन्तर्दशा में आपको जीवन का सुख मिलेगा। जमीन-जायदाद में वृद्धि होगी तथा वाहन का सुख भी मिलेगा। शनि की अन्तर्दशा में आपकी छोटी लाभदायक यात्रा तथा मंगल की अन्तर्दशा में दूर की यात्रा होगी।

शिक्षा :

आपकी शिक्षा उत्तम होगी। आप प्रतियोगिताओं तथा परिचर्चा में अच्छा करेंगे और आपकी वाक्पटुता उत्तम होगी। आप समूह-परिचर्चा तथा ऐसी अन्य गतिविधियों में अच्छा करेंगे। लेखा, वाणिज्य, साहित्य, कम्प्यूटर विज्ञान, रचनात्मक पत्रकारिता तथा समाचार माध्यम और जनसंचार में आपकी रुचि होगी। अन्य प्रतिभाशाली, कूटनीति और बहुमुखी हैं और विभिन्न विषयों में आपकी रुचि है। आपका मस्तिष्क विवेकपूर्ण और विश्लेषणात्मक है और

Astro praveen

जन्म कुंडली विश्लेषण

Vedic, Kp, Jaimini, Lalkitab, Numerology, Vastu

9669317073

आप सभी बौद्धिक कार्यों में अच्छा करेंगे।

परिवार :

बच्चों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपके जीवन साथी को सफलता, यश और ख्याति की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और जीवन-वृत्ति में उन्नति होगी। आपके जीवन साथी के साथ आपका सम्बन्ध मधुर रहेगा। आपकी माता को जमीन-जायदाद सुख और मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी जबकि आपके पिता को सफलता और लाभ मिलेगा तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। आपके छोटे भाई-बहन को सट्टे में लाभ तथा सुख की प्राप्ति और शिक्षा उत्तम होगी जबकि बड़े भाई-बहनों को सम्पत्ति तथा समृद्धि की प्राप्ति होगी। इस दशा के दौरान आपकी यात्रा होगी, सफलता मिलेगी और अध्यात्म की ओर झुकाव होगा।

अन्तर्दशा :

बुध की महादशा में बुध की अन्तर्दशा के फलस्वरूप आपका विवाह होगा, माता-पिता से लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। केतु कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है। शुक्र की अन्तर्दशा में आपको कुछ लाभ और कुछ मामूली स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। सूर्य की अन्तर्दशा में सम्पत्ति तथा समृद्धि की प्राप्ति होगी जबकि चन्द्र दशा में कुछ परिवर्तन और अचानक लाभ हो सकता है। मंगल की अन्तर्दशा में बच्चों से सुख और सट्टे में लाभ मिलेगा। राहु के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। गुरु की अन्तर्दशा के दौरान सुख, यश और ख्याति मिलेगी जबकि शनि की अन्तर्दशा में छोटी यात्रा और लाभ हो सकता है।

Astro praveen

जन्म कुंडली विश्लेषण

Vedic, Kp, Jaimini, Lalkitab, Numerology, Vastu

9669317073

**अंतर्दशा :- बुध - शुक्र
(24/04/2023 - 22/02/2026)**

आपके लिए बुध की महादशा 29/11/2019 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में तीसरी अंतर्दशा शुक्र की होगी जिसकी अवधि 2 वर्ष 10 मास होगी। आपके लिए यह 24/04/2023 को प्रारंभ होकर 22/02/2026 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शुक्र सौंदर्य, शांति और समृद्धि का कारक है।

इस अवधि में आपके जीवन में अचानक कुछ घट सकता है; परिवर्तन हो सकता है। अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। प्रसन्नचित्त रहेंगे। जीवनसाथी के माध्यम से धनलाभ हो सकता है। अध्यात्म में रुचि होगी। साझेदार के माध्यम से या विरासत द्वारा धनलाभ हो सकता है। पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। विभिन्न माध्यमों से धनागम होगा। उत्तम सुविधाएं, उत्तम भोजन, आभूषण और सुंदर वस्तुएं प्राप्त होंगी।

आपके जीवनसाथी धनी बनेंगे, सुख-साधनसंपन्न रहेंगे, पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। आपके पिता के खर्चे बढ़ सकते हैं। यात्राएं होंगी। माता को निवेश या सहेबाजी से लाभ होगा। आपके भाई-बहनों के लिए उत्तम स्वास्थ्य, शत्रुओं पर विजय, कार्यक्षेत्र में सफलता, अच्छी आय, उत्तम मित्र और प्रसन्नता का संकेत है।

आपकी संतान की शिक्षा उत्तम होगी, परिवारजनों और मित्रों से संबंध उत्तम होंगे। अगर वे कार्यरत हैं तो जीवन सुखमय होगा।

अगर आप सेवारत हैं तो स्वयं के प्रयास से सफलता मिलेगी। परामर्शदाता धन कमाएंगे। व्यापारियों को कई माध्यमों से लाभ होगा।

आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। गंभीर बीमारी का ठीक से इलाज करायें। शुभत्व में वृद्धि के लिए शुक्र मंत्र का जाप करें।

**अंतर्दशा :- बुध - सूर्य
(22/02/2026 - 30/12/2026)**

आपके लिए बुध की महादशा 29/11/2019 को प्रारंभ हुई थी। इसमें चौथी अंतर्दशा सूर्य की होगी जिसकी अवधि 10 मास 6 दिन रहेगी। आपके लिए यह 22/02/2026 को प्रारंभ होकर 30/12/2026 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी सूर्य स्वास्थ्य, ऊर्जा और आत्मा का कारक है।

इस अवधि में आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आयु में बड़े लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। व्यापार में लाभ होगा। आत्मविश्वास और सम्मान में वृद्धि होगी। विदेश जा सकते हैं। वांछित स्थान पर तबादला हो सकता है। उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे। हर काम में सफलता मिलेगी, प्रगति होगी। उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे; सम्मान और उच्चपद मिलेंगे।

Astro praveen

जन्म कुंडली विश्लेषण

Vedic, Kp, Jaimini, Lalkitab, Numerology, Vastu

9669317073

आपके जीवनसाथी को कार्यों में सफलता और प्रसिद्धि मिलेगी। आपके पिता को उच्चपद मिलेगा; सरकार से लाभ होगा। माता को अचल संपत्ति मिल सकती है, स्पर्धियों पर विजय मिलेगी। आपके भाई-बहनों का स्वास्थ्य उत्तम होगा, शिक्षा अच्छी होगी, सुख-साधन होंगे, उच्चपद मिल सकता है, सफलता मिलेगी और व्यापार में धनलाभ होगा।

आपकी संतान की इच्छाएं पूर्ण होंगी, साहित्य और दूरदर्शन आदि में सफलता मिल सकती है। अगर वे कार्यरत हैं तो उच्चपद और प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। अगर आप सेवारत हैं तो धनार्जन उत्तम होगा, धन संचित होगा, उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। परामर्शदाता सक्रिय रहेंगे लाभ, सफलता और धन का संकेत है। व्यापारी सफलता और धन के भागी होंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। छोटी-मोटी शिकायत हो सकती है।

**अंतर्दशा :- बुध - चन्द्र
(30/12/2026 - 30/05/2028)**

आपकी बुध की महादशा 29/11/2019 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में पांचवी अंतर्दशा चंद्रमा की होगी, जिसकी अवधि 1 वर्ष 5 मास होगी। आपके लिए यह 30/12/2026 को प्रारंभ होकर 30/05/2028 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी चंद्र माता, सरकारी कृपा और चेहरे की चमक का कारक है।

इस अवधि में आप धनी बनेंगे। दान-धर्म में रुचि होगी। समाजसेवी संस्था की स्थापना कर सकते हैं। प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे। लंबी दूरी की लाभदायक यात्रा हो सकती है या रिश्तेदार आपके घर पर पधार सकते हैं। माता-पिता से संबंध उत्तम रहेंगे, उनसे लाभ होगा। कला और साहित्य में रुचि होगी। पड़ोसियों से संबंध मित्रवत रहेंगे।

आपके जीवनसाथी को कार्यों में सफलता मिलेगी, वे कला में रुचि लेंगे। आपके पिता भाग्यशाली रहेंगे। माता बाधाओं और स्पर्धियों पर विजयी रहेंगी।

आपके भाई-बहनों को साझेदारी से लाभ होगा; कार्यक्षेत्र में सफल रहेंगे, बहुत से मित्र होंगे, संतान से सुख मिलेगा या शिशु का जन्म हो सकता है। आपकी संतान परीक्षा में सफल रहेगी। अगर वे कार्यरत हैं तो निवेश से लाभ होगा, भाग्यशाली और धनी बनेंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो साख में वृद्धि होगी, उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे, सफलता मिलेगी। परामर्शदाताओं के खर्च बढ़ सकते हैं, कुछ परिवर्तन हो सकता है। व्यापारी सामान बेचने में कुशलता द्वारा धन कमाएंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मामूली गठिया आदि व्याधि हो सकती है। शुभत्व में वृद्धि के लिए किसी कन्या को वस्त्र दान में दें।

Astro praveen

जन्म कुंडली विश्लेषण

Vedic, Kp, Jaimini, Lalkitab, Numerology, Vastu

9669317073

**अंतर्दशा :- बुध - मंगल
(30/05/2028 - 27/05/2029)**

आपके लिए बुध की महादशा 29/11/2019 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में छठी अंतर्दशा मंगल की होगी जिसकी अवधि 11 मास 27 दिन रहेगी। यह 30/05/2028 को प्रारंभ होकर 27/05/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी मंगल साहस, महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास का कारक है।

इस अवधि में आपको साझेदारी से लाभ होगा। वांछित सफलता प्राप्त होगी। घरेलू जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। धन और उच्चपद प्राप्त होंगे। शिक्षा उत्तम होगी। प्रसिद्धि मिलेगी। स्पर्धियों पर विजय होगी। उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं।

आपके भाई-बहनों के लिए निवेश से लाभ, संतान से खुशी, यात्रा, सफलता और प्रसिद्धि का संकेत है। आपकी संतान स्पर्धियों पर विजयी होगी। अगर वे कार्यरत हैं तो धन, सुखसाधन, लघु यात्रा और उत्तम स्वास्थ्य का योग है। अगर आप सेवारत हैं तो आय में वृद्धि होगी। परामर्शदाता सफल होंगे। व्यापारियों की आय और व्यस्तता में वृद्धि होगी। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभत्व में वृद्धि के लिए शिवजी की उपासना करें।

**अंतर्दशा :- बुध - राहु
(27/05/2029 - 15/12/2031)**

आपके लिए बुध की महादशा 29/11/2019 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में सातवीं अंतर्दशा राहु की होगी, जिसकी अवधि 2 वर्ष 6 मास 18 दिन रहेगी। आपके लिए यह 27/05/2029 को प्रारंभ होकर 15/12/2031 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी राहु भौतिक समृद्धि और अचानक, अप्रत्याशित घटनाओं का कारक है।

इस अवधि में आपको लघु यात्राओं, प्रकाशन और लेखन से लाभ होगा। आप उत्साही, साहसी और दृढ़प्रतिज्ञ होंगे। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धनी बनेंगे। कार्यों में लाभ होगा। आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। उच्च पद प्राप्त होगा, सांसारिक सुख मिलेगा। सत्कार्यों में रुचि होगी। शिक्षा में नाम होगा। विदेश यात्रा हो सकती है। छोटे भाई-बहनों में किसी का विवाह हो सकता है। आपके जीवनसाथी की यात्रा हो सकती है, भौतिक सुख मिलेंगे। आपके पिता को साझेदारी से लाभ होगा। माता के खर्चे बढ़ेंगे, यात्राएं होंगी, नये मित्रों से लाभ होगा। आपके भाई-बहनों के लिए सफलता, धनलाभ, उत्तम स्वास्थ्य, नये व्यापार की स्थापना, संतानसुख, निवेश में सफलता का संकेत है।

आपकी संतान को परीक्षा में सफलता मिलेगी, उनके प्रभावशाली मित्र होंगे। अगर वे कार्यरत हैं तो धनी बनेंगे, अच्छे आर्थिक अवसर मिलेंगे, लोगों से मदद मिलेगी।

अगर आप सेवारत हैं तो प्रसिद्ध बनेंगे, आय बढ़ेगी, उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। परामर्शदाता स्पर्धियों पर विजयी रहेंगे। व्यापारी भाग्यशाली रहेंगे।

Astro praveen

जन्म कुंडली विश्लेषण

Vedic, Kp, Jaimini, Lalkitab, Numerology, Vastu

9669317073

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभत्व में वृद्धि के लिए राहु मंत्र का जाप करें।
ॐ रां राहवे नमः



Astro praveen

जन्म कुंडली विश्लेषण

Vedic, Kp, Jaimini, Lalkitab, Numerology, Vastu

9669317073